



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 11—फरवरी 17, 2012 (माघ 22, 1933)  
No. 6] NEWDELHI, SATURDAY, FEBRUARY 11—FEBRUARY 17, 2012 (MAGHA 22, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	31
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	135
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	123
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	187
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	3297
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	49
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	31	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	135	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	123	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	187
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	3297
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	49
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I — खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 12 जनवरी 2012

संकल्प

सं. 1/1(2)/2010/बीएमएचआरसी/आर एंड डी-II/502--परमाणु ऊर्जा विभाग (पञ्चवि) ने दिनांक 03.09.2010 के संकल्प सं. 1/1(2)/2010-आर एंड डी-II/टीएमसी/8423 के द्वारा भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र का प्रशासनिक नियंत्रण दिनांक 02.08.2010 से प्रभावी रूप में अपने अधिकार में लिया था। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 10.01.2012 की टिप्पणी सं. 1/सीएम/2012(i) के द्वारा बीएमएचआरसी, भोपाल के प्रशासनिक नियंत्रण को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए किये गये बजट प्रावधानों के साथ, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग से स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को तुरंत प्रभाव से हस्तांतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

तदनुसार, एतद्वारा बीएमएचआरसी, भोपाल का प्रशासनिक नियंत्रण स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाता है बीएमएचआरसी, भोपाल से संबंधित सभी प्रशासनिक, वित्तीय, कानूनी तथा अन्य मामलों की देख-रेख एवं निपटण अब स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

एन. विजयराघवन  
अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2012

संकल्प

सं. ईआरबी-1/2012/23/2--रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने खानपान/वेंडिंग स्टॉलों/बुक स्टॉलों/पर्यटन सूचना केन्द्रों आदि के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए यात्री सेवा समिति का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है।

2. समिति, श्री जोआचिम बाक्सला, पूर्व संसद सदस्य, निवासी न्यू सुभाषपल्ली, डाक-हैमिल्टनगंज, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल-735214 की अध्यक्षता में कार्य करेगी।

3. समिति के अन्य सदस्य नीचे दिए गए अनुसार होंगे :-

- (i) श्री गौतम घोष पुत्र स्व. एस. एन. घोष, निवासी 5/28, नेताजी नगर, कोलकाता-700040

- (ii) श्री शांतनु रॉय चौधुरी, 54/ई, पी. के. गुहा लेन, दम दम कैण्ट, कोलकाता-700028

- (iii) सुश्री अनासुआ चौधुरी, 9 ई, स्टेशन लेन, धाकुरिया, कोलकाता-700031

- (iv) सुश्री किश्वर जहां, 7 बी/एच/13, तिलजला लेन, कोलकाता-700019

- (v) श्री मनीष मित्रा, 2/1, बोसपुकुर, शान्ति पल्ली, कोलकाता-700042

- (vi) श्री मोहम्मद नदीमुल हक, द्वारा अखबार-ए-मशरीक, 12, दरगाह रोड, कोलकाता-700017

4. निदेशक (पर्यटन एवं खानपान), रेलवे बोर्ड समिति के सचिव होंगे।

5. समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए अनुसार हैं :-

(क) खानपान/वेंडिंग स्टॉलों/ट्रॉलियों और अन्य सभी स्टॉलों जैसे बुक स्टॉलों और अन्य विविध स्टॉलों, पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी बूथों के आकार, डिजाइन और स्थल की पुनरीक्षा करना और डिजाइन, आकार तथा स्थल के मानकीकरण के लिए उपायों की सिफारिश करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे न केवल स्टेशन के सौंदर्यीकरण के अनुरूप हों बल्कि न्यूनतम स्थान घेरें और वे यात्रियों के चलने-फिरने में बाधा उत्पन्न न करें। वे इस प्रकार की सेवाओं के बढ़ने और उनके अव्यवस्थित तरीके से स्थापित होने के कारण महत्वपूर्ण स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ को कम करने के उपायों के बारे में विशिष्ट रूप से सिफारिश करेंगे।

(ख) समिति, स्टेशनों पर और गाड़ियों में अप्राधिकृत फेरी वालों/वेंडिंग की समस्याओं का अध्ययन करेगी, संवेदनशील स्थलों, सेक्शनों और गाड़ियों की पहचान करेगी और इस समस्या को दूर करने के लिए ठोस उपायों की सिफारिश करेगी।

(ग) समिति उन वस्तुओं की भी पुनरीक्षा करेगी जिन्हें इस समय इन विभिन्न स्टॉलों पर बेचे जाने की अनुमति है और उनका मानकीकरण सुझाएगी। यह ऐसी वस्तुओं की सिफारिश भी करेगी जो स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले और किसी भी तरह से जनता की पसंद और संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाए जनता को बेचे जाने हेतु शामिल की जाएगी।

(घ) समिति परिवहन के अन्य साधनों, शहर के नक्शों आदि की उपलब्धता के संबंध में यात्रा कर रही जनता के मार्गनिर्देश के लिए पर्यटक सूचना बूथों और किऑस्कों की स्थापना की आवश्यकता की जांच करेगी और सिफारिश करेगी।

(ड) समिति, क्षेत्रीय और प्रादेशिक आवश्यकताओं पर आधारित पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री और साथ ही राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक न्याय, साम्प्रदायिक सामंजस्य, ग्रामीण विकास आदि विषयों वाले साहित्य की बिक्री के संबंध में जांच करेगी और सिफारिश करेगी। समिति गाड़ियों में, रेलवे स्टेशनों पर बजाए जाने वाले संगीत और साथ ही स्टेशनों आदि पर दृश्य माध्यम जैसे क्लोज़ड सर्किट टेलीविज़नों (सीसीटीवी) के जरिए दिए जाने वाले संदेशों की भी जांच करेगी।

6. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक होगा।

7. पर्यटन एवं खानपान निदेशालय समिति के साथ संपर्क बनाए रखने और इसकी सिफारिशों का समय पर कार्यान्वयन करने के लिए नोडल निदेशालय होगा।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

#### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 16 जनवरी 2012

#### संकल्प

सं. ई-11013/6/2009-हिन्दी--सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिनांक 22.12.2008 के संकल्प संख्या ई-11013/7/2008-हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार, एतद्वारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है। इस समिति का गठन, कार्य, कार्यकाल आदि निम्नानुसार होंगे :--

#### I. गठन

- |   |         |
|---|---------|
| 1. माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (टी) | अध्यक्ष |
|---|---------|

#### II. सरकारी सदस्य

##### (क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

- |   |            |
|---|------------|
| 2. सचिव                                   | सदस्य      |
| 3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार           | सदस्य      |
| 4. महा निदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव | सदस्य      |
| 5. संयुक्त सचिव (परिवहन एवं प्रशासन)      | सदस्य-सचिव |

##### (ख) राजभाषा विभाग

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| 6. सचिव         | सदस्य |
| 7. संयुक्त सचिव | सदस्य |

##### (ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आने वाले कार्यालयों के प्रतिनिधि

- |   |       |
|---|-------|
| 8. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली | सदस्य |
| 9. निदेशक, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, नोएडा                    | सदस्य |
| 10. महासचिव, भारतीय सड़क कांग्रेस, नई दिल्ली                        | सदस्य |

#### III. गैर सरकारी सदस्य

##### (क) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य

- |   |       |
|---|-------|
| 11. श्री रमेश कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा)   | सदस्य |
| स्थानीय व स्थायी पता--713-एबी, पॉकेट-II, पश्चिम पुरी, नई दिल्ली-110063.<br>दूरभाष-25212722, 23355222<br>मोबाइल : 9013180114   |       |
| 12. श्रीमती भावना गवली पाटील, संसद सदस्य (लोक सभा)  | सदस्य |
| स्थायी पता-समर्थवाड़ी यवतमाल, सिविल लाईन, रिसोद जिला-वाशिम-444506 (महाराष्ट्र)<br>दूरभाष : 0723-2253595, 222215, 222916<br>स्थानीय पता-29 केनिंग लेन, नई दिल्ली-110001<br>दूरभाष : 09922014441, 09868180222   |       |
| 13. श्री आर. के. धवन, संसद सदस्य (राज्य सभा)  | सदस्य |
| स्थानीय पता-141, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली-110003<br>दूरभाष : 24624262, 24693223<br>मोबाइल : 09868181139  |       |
| 14. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य (राज्य सभा)  | सदस्य |
| स्थायी पता-3, शिवानंदन भवन, बोरिंग रोड पटना-800001 (बिहार)<br>दूरभाष : 0612-2530417<br>स्थानीय पता-एबी/97, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011<br>दूरभाष : e.23070300, 23070999<br>मोबाइल : 09811119257, 9431216555 |       |

##### (ख) संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

- |  |       |
|--|-------|
| 15. डॉ. निर्मल खत्री, संसद सदस्य (लोक सभा)   | सदस्य |
| स्थायी पता-मकान नं. 6/6/43, मोहल्ला बजाजा शहर व जिला-फैजाबाद-224001 (उत्तर प्रदेश)<br>दूरभाष: 05278-221675,<br>मोबाइल : 09415039039<br>स्थानीय पता-17 केनिंग लेन, नई दिल्ली-110003                   |       |
| 16. डॉ. रामप्रकाश, संसद सदस्य (राज्य सभा)  | सदस्य |
| स्थायी पता-मकान नं. 1634-35, सेक्टर-13, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)<br>दूरभाष: 01744-220571<br>मोबाइल : 09416037571<br>स्थानीय पता-5, मीना बाग, नई दिल्ली-110001<br>दूरभाष : 23795571, मोबाइल : 9868181571 |       |

##### (ग) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली/अखिल भारतीय हिन्दी सेवा संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि

- |  |       |
|--|-------|
| 17. श्री पंकज दीवान,   | सदस्य |
| आवासीय पता : 3/10, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008<br>मोबाइल: 9891635077<br>कार्यालय का पता :<br>उद्यान निदेशक (न.दि.क्षे.) का कार्यालय,<br>केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,<br>इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002 |       |

18. श्री सूर्यकांत नागवेकर,  
सचिव, मुंबई हिन्दी सभा,  
लक्ष्मी भूवन, प्रथम तल,  
रानाडे रोड, दादर (पश्चिम),  
मुंबई-400028 (महाराष्ट्र)  
मोबाइल : 09820852168,  
दूरभाष कार्यालय : 022-24222068

सदस्य

(घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

19. श्री अनुराग चतुर्वेदी,  
1104, क्रिमसन टावर  
कांदीवली (पूर्व) मुंबई-400101  
फोन नं. 022-25798814  
मोबाइल : 09821004824

सदस्य

20. श्री चन्द्रशेखर दुबे,  
मार्फत श्री दलीप गोहिल,  
62/63, धनवर्षा सोसायटी,  
जीईबी ऑफिस के सामने,  
पूनागम, मगब, सूरत-394111 (गुजरात),  
मोबाइल : 09173714369/09427580303  
ईमेल : csdsurat@gmail.com

सदस्य

21. श्री अशोक पंजाबी (अशोक नंदलाल खरियाल), सदस्य  
ए/61, नई निकिता पार्क सोसायटी,  
सन-एन-स्टेप क्लब के नजदीक,  
थलतेज, अहमदाबाद-61  
फोन नं. 27482794 मोबाइल : 09825006530

22. श्री मानवेन्द्र सिंह,  
ढकिया परवेजपुर पोस्ट ऑफिस-राई खेड़ा,  
विकास खण्ड-ददरौल, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)  
मोबाइल : 09415035577

सदस्य

(ङ) राजभाषा विभाग द्वारा नामित किए गए गैर-सरकारी सदस्य

23. श्री लियाकत अली,  
58 ए, हौजरानी, मालवीय नगर,  
नई दिल्ली-110017  
मोबाइल : 9540793937

सदस्य

24. श्री धरम पाल सिंह उर्फ डी. पी. शुक्ला,  
जे-170 निकट डी-47, किदवई नगर (ईस्ट)  
नई दिल्ली-110023  
मोबाइल-9312396446

सदस्य

25. श्री अशोक कुमार बग्गा,  
ई-143, ग्रेटर कैलाश भाग-2,  
नई दिल्ली-110048  
मोबाइल : 9810030742

सदस्य

## 2. समिति के कार्य

समिति का काम, सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के साथ-साथ संविधान, राजभाषा अधिनियम और नियमों में उल्लिखित राजभाषा से संबंधित प्रावधानों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों और राजभाषा

विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सलाह देना है।

## 3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल सामान्यतः समिति के गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीन वर्ष का होगा,

- (क) जो सांसद इस समिति के सदस्य हैं, वे सांसद न रहने पर इस समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे;
- (ख) संसदीय राजभाषा समिति के जो प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे;
- (ग) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने पदों पर हैं, जिनके नाते वे इस समिति के सदस्य हैं; और
- (घ) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र देने, मृत्यु हो जाने आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल समिति की तीन वर्ष की शेष अवधि तक ही होगा।

## 4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु इस समिति की बैठक दिल्ली से बाहर भी हो सकेगी।

## 5. यात्रा भत्ते एवं अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.-II/20034/4/2005 रा. भा. (नीति-2) के अनुसार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्तों एवं अन्य भत्तों का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा :--

- (क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
- (ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं.-II/22034/4/86-रा. भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति, सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, संघ लोक सेवा आयोग और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नितिन आर. गोकर्ण  
संयुक्त सचिव

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 12th January 2012

## RESOLUTION

No. 1/1(2)/2010/BMHRC/R&D-II/502—Vide Resolution No. 1/1(2)/2010-R&D-II/TMC/8423 dt. 03.09.2010, the Department of Atomic Energy (DAE) had taken over the administrative control of the Bhopal Memorial Hospital and Research Centre (BMHRC), Bhopal with effect from 02.08.2010. The Union Cabinet vide note 1/CM/2012(i) dated 10.01.2012 has approved the transfer of administrative control of the BMHRC, Bhopal together with the budget provisions made by the DAE for 2011-12, from the Department of Atomic Energy and Department of Bio-Technology to the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare with immediate effect.

Accordingly, administrative control of the BMHRC, Bhopal is hereby transferred to the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. All Administrative, Financial, Legal and other matters pertaining to the BMHRC will henceforth be dealt by the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare.

N. VIJAYARAGAVAN  
Under Secy.

---

 MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 12th January 2012

## RESOLUTION

No. ERB-1/2012/23/2—The Ministry of Railways (Railway Board) have decided to reconstitute Passenger Services Committee to look into the various aspects of catering/vending stalls/book stalls/tourist information centres etc.

2. The Committee will function under the Chairmanship of Shri Joachim Baxla, Ex-Member of Parliament, R/o New Subhaspally, P.O. Hamiltonganj, Distt. Jalpaiguri, West Bengal-735214.

3. The other members of the Committee will be as under :—

- (i) Shri Gautam Ghosh, S/o Late Shri S. N. Ghosh, R/o 5/28, Netaji Nagar, Kolkata-700040.
- (ii) Shri Santanu Roy Choudhury, 54/E, P. K. Guha Lane, Dum Dum Cantonment, Kolkata-700028.
- (iii) Ms. Anasua Choudhury, 9E, Station Lane, Dhakuria, Kolkata-700031.
- (iv) Ms. Kishwar Jahan, 7B/H/13, Tiljala Lane, Kolkata-700019.
- (v) Shri Manish Mitra, R/o 2/1, Bosepukur, Prantick Pally, Kolkata-700042.
- (vi) Shri Mohammed Nadimul Haque, C/o Akhbar-e-Mashriq, 12, Dargah Road, Kolkata-700017.

4. Director (Tourism & Catering), Railway Board will be the Secretary of the Committee.

5. The Terms of reference of the Committee are as under :—

- (a) To review the size, design and location of catering/vending stalls/trolleys and all other stalls like book stalls and other miscellaneous stalls, PCO/ISD/STD booths and recommend measures for standardization of the design, size as well as the location so as to ensure that they not only match with the aesthetics of the station, but also take up minimum space and do not create hindrance to movement and circulation of passengers. They would specifically recommend steps to reduce congestion at important stations and platforms caused due to proliferation of such services and their installation in a haphazard manner.
- (b) The Committee would study the problems of unauthorized hawking/vending at stations and in trains, identify vulnerable locations, sections and trains, and recommend concrete measures to eliminate this menace.
- (c) The Committee would also review the items, which are presently permitted to be sold at these various stalls and suggest their standardization. They would recommend items, which would be included for sale to public without any risk to health and hygiene and in no way offend public taste and sensitivity.
- (d) The Committee would examine and recommend on the requirement for setting up of tourist information booths as well as kiosks for guiding travelling public regarding availability of other modes of transport, city maps etc.
- (e) The Committee would examine and recommend regarding sale of books and publications depending on the regional and territorial requirements as also sale of literature for permitting themes of national integration, social justice, communal harmony, rural development etc. The Committee would also examine the kind of music to be played in trains at railway stations as also the messages given through the visual media like Closed Circuit Televisions (CCTVs) at stations etc.

6. The tenure of the Committee will be for a period of two years or till further orders, whichever is earlier.

7. The Tourism and Catering Directorate will be the nodal Directorate interacting with the Committee and processing its various recommendations for timely implementation.

## ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 16th January 2012

## RESOLUTION

No. E.-11013/6/2009-Hindi—In supersession of the Ministry of Road Transport and Highways' Resolution No. E-11013/7/2008-Hindi dated 22.12.2008, the Government of India, hereby, re-constitutes the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Road Transport and Highways. The composition, functions, tenure etc. of the Samiti will be as under :—

## I. COMPOSITION

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Minister of State for Road Transport & Highways (T) | Chairman |
|--|----------|

## II. OFFICIAL MEMBERS

## (A) Ministry of Road Transport &amp; Highways

- |   |                  |
|---|------------------|
| 2. Secretary  | Member           |
| 3. Addl. Secretary and Financial Advisor                | Member           |
| 4. Director General (Road Development) & Spl. Secretary | Member           |
| 5. Joint Secretary (Tpt. & Admn.)                       | Member Secretary |

## (B) Department of Official Language

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| 6. Secretary       | Member |
| 7. Joint Secretary | Member |

## (C) Offices under Ministry of Road Transport &amp; Highways

- |  |        |
|--|--------|
| 8. Chairman, National Highways Authority of India, New Delhi | Member |
| 9. Director, Indian Academy of Highway Engineers, Noida      | Member |
| 10. Secretary General, Indian Road Congress, New Delhi.      | Member |

## III. NON-OFFICIAL MEMBERS

## (a) Non Official Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs.

- |  |        |
|--|--------|
| 11. Shri Ramesh Kumar, M. P., (Lok Sabha)  | Member |
| Permanent Address :<br>713-AB, Pkt-II, Paschim Puri,<br>New Delhi-110063.<br>Tel. 25212722, 23355222 Mob. 9013180114<br>Local Address :<br>713-AB, Pkt-II, Paschim Puri,<br>New Delhi-110063 |        |
| 12. Smt. Bhavana Gawali Patil, M.P. (Lok Sabha)  | Member |
| Permanent Address :<br>Samarthwadi, Yavatmal Civil Lines,<br>Risod Distt., Washim-444506, Maharashtra<br>Tel. : 0723-2253595, 222215, 222916   |        |

## Local Address :

29, Canning Lane, New Delhi-110001.  
Tel. : 09922014441, 09868180222.

- |  |        |
|--|--------|
| 13. Sh. R. K. Dhawan, M. P. (Rajya Sabha)  | Member |
| 141, Golf Links, New Delhi-110035.<br>Tel. : 24624262, 24693223 Mob. : 09868181139 |        |

- |   |        |
|---|--------|
| 14. Sh. Rajiv Partap Rudy, M. P. (Rajya Sabha)                            | Member |
| Permanent Address<br>3, Shivanandan Bhawan, Boring Road,<br>Patna-800001. |        |

Tel. : 0612-2530417

## Local Address :

AB/97, Shahjahan Road, New Delhi.  
Tel. : 23070300, 23070999  
Mob. : 9811119257, 9431216555

## (b) Representatives of the Committee of Parliament on Official Language

- |  |        |
|--|--------|
| 15. Dr. Nirmal Khatri, M. P. (Rajya Sabha)   | Member |
| Permanent Address<br>H. No. 6/6/43, Mohalla-Bazaza,<br>City Distt. Faizabad (U. P.) -2240001.<br>Tel. : 05278-221675, Mob. : 09415039039<br>Local Address :<br>17, Canning Lane, New Delhi-110003. |        |

- |   |        |
|---|--------|
| 16. Dr. Ram Prakash, M. P. (Rajya Sabha)  | Member |
| Permanent Address :<br>H. No. 1634-35, Sector-13,<br>Kurukshetra, Haryana.<br>Tel. : 01744-220571 Mob. : 09416037571.<br>Present Address :<br>5, Meena Bagh, New Delhi-110001.<br>Tel. : 23795571, Mob. : 9868181571. |        |

## (c) Representatives nominated by Kendria Sachivalaya Hindi Parishad/Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh

- |  |        |
|--|--------|
| 17. Shri Pankaj Deewan,  | Member |
| 3/10, West Patel Nagar,<br>New Delhi-110008.<br>Mob. : 9891635077<br>Office Address :<br>Office of the Director (Horticulture)<br>New Delhi Region, C.P.W.D.<br>Inderprastha Estate, New Delhi-110002. |        |

- |   |        |
|---|--------|
| 18. Shri Suryakant Nagvekar   | Member |
| Secretary, Mumbai Hindi Sabha,<br>Laxmi Bhuwan, Ist Floor, Ranadey<br>Road, Dadar (West), Mumbai-400028<br>(Maharashtra) Mob. : 09820852168,<br>Ph. : Office 022-24222068 |        |

## (d) Members nominated by Ministry of Road Transport &amp; Highways

- |  |        |
|--|--------|
| 19. Sh. Anurag Chaturvedi  | Member |
| 1104, Crimson Tower,<br>Kandivali (East), Mumbai-400101.<br>Phone : 022-25798814<br>Mob. : 09821004824 |        |

20. Sh. Chandrashekhar Dubey, Member  
C/o Shri Dilip Gohil  
62/63, Dhanvarsha Society  
Opp. GEB Office, Punagam  
Magob Surat-394111 (Gujarat)  
Mob. : 94275-80303/9173714369  
E-mail : csdsurat@gmail.com

21. Shri Ashok Punjabi, Member  
(Ashok Nandlal Khariyal),  
A/61, New Nikita Park Society,  
Near Sun-N-Step Club, Thaltej,  
Ahmedabad-61  
Phone : 27482794 Mob. : 9825006530

22. Shri Manvender Singh, Member  
Dhakia Parvejpur,  
Post Office : Rai Khara  
Vikas Khand-Dadrol, Shahjahanpur,  
Uttar Pradesh, Mob. : No. 9415035577

Non Official Members nominated by the Department of Official Language

23. Shri Liyakat Ali, Member  
58-A, Hauz Rani, Malviya Nagar,  
New Delhi-110017, Mob. : 9540793937

24. Shri Dharam Pal Singh, Member  
Alias D. P. Shukla,  
J-170/Near D-47, Kidwai Nagar East,  
New Delhi-110023, Mob. : 9312396446

25. Shri Ashok Kumar Bagga, Member  
E-143, Greater Kailash, Part-II,  
New Delhi-110048, Mob. : 9810030742

## 2. Function of Committee

The functions of the Samiti will be to render advice to the Government with regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Languages Act and rules and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Deptt. of Official Language and also with regard to the progressive use of Hindi in the Ministry of Road Transport & Highways.

## 3. Tenure

The tenure of the Samiti will normally be three years from the date of its constitution provided that :

- (a) A member, who is a Member of Parliament, will cease to be a Member of Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;

(b) The representatives of the Committee of the Parliament on Official Language shall cease to be the Members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of Parliament.

(c) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti; and

(d) A member nominated on a vacancy arising in the Samiti due to the death or resignation of any member, shall hold office for the residual term.

## 4. General

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meeting out of Delhi also, if necessary.

## 5. Travelling and Other Allowances

As per Department of Official Languages' Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L. (Policy-2) dated 03.02.2006, Travelling Allowance and Daily Allowance to Non-Official Members of the Samiti will be paid as under :—

(a) The Members of Parliament will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance for attending the meeting of the Samiti as per the provisions of the Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954 and rules made there-under and the amendments issued from time to time.

(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other Non Official Members of the Samiti will be paid as per guidelines contained in the Department of Official Languages' Office Memorandum No. II/22034/04/86-O.L. (A-2) dated 22.01.1987 and in accordance with the prescribed rates and rules of the Government of India as amended from time to time.

## ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administrations, All Ministries and Departments of the Government of India, President Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission and Election Commission of India.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NITIN R. GOKARN  
Jt. Secy.